



पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष  
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा सेक्टर -40, अटल नगर (छ0ग0)-493661  
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234  
website : www.cghealthuniv.com  
E-mail : healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक / F-<sup>130</sup> / NS-25 / डी.डी.यू.यू. / परीक्षा / 2019 7760 रायपुर, दिनांक-22/08/19

// अधिसूचना //

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा आयोजित होने वाली बी.यू.एम.एस. प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष की परीक्षा अक्टूबर 2019/2 की समय-सारिणी, परीक्षा आवेदन शुल्क, परीक्षा आवेदन भरने की तिथि एवं परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. परीक्षा फार्म भरने का विवरण

क्र.	छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में फार्म भरने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	अंतिम तिथि के बाद विलम्ब शुल्क के साथ (प्रति दिवस प्रति छात्र रुपये 200/-)
1.	31.08.2019	05.09.2019	09.09.2019

2. परीक्षा आवेदन शुल्क :-

क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क	अंकसूची शुल्क	छात्र कल्याण शुल्क	शारीरिक शिक्षा शुल्क	अग्रोषण शुल्क	कुल योग
1.	बी.यू.एम.एस. प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष	1900.00	100.00	100.00	100.00	50.00	2250.00

पूरक / द्वितीय परीक्षा हेतु शुल्क

क्र.	परीक्षा	परीक्षा शुल्क	अंकसूची शुल्क	अग्रोषण शुल्क
1.	बी.यू.एम.एस. प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष	1900.00	100.00	50.00

3. समय-सारिणी :-

B.U.M.S. FIRST PROFESSIONAL

S.No.	Date of Examination	Day	Subject	Time
1	07-10-2019	Manday	Arabic and Mantiq wa Falsifa (Logic, Philosophy and Astronomy)	01:00 PM to 04:00 PM
2	09-10-2019	Wednesday	Kulliyat Umoore Tabiya (Basic Principles of Unani Medical)	
3	11-10-2019	Friday	Tashreehul Badan (Anatomy) Paper - I	
4	12-10-2019	Saturday	Tashreehul Badan (Anatomy) Paper - II	
5	14-10-2019	Monday	Munafeul Aaza (Physiology) Paper - I	
6	15-10-2019	Tuesday	Munafeul Aaza (Physiology) Paper - II	

नोट:- प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 30/10/2019 तक स्वयं के महाविद्यालय में सम्पन्न करा ली जावें।

**B.U.M.S. SECOND PROFESSIONAL**

S.No.	Date of Examination	Day	Subject	Time
1	07-10-2019	Monday	Tareekh-e-Tib (History of Medicine)	01:00 PM to 04:00 PM
2	09-10-2019	Wednesday	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Community Medicine)	
3	11-10-2019	Friday	ILmul Advia (Kulliyate Advia) Paper-I	
4	12-10-2019	Saturday	ILmul Advia (Advia Mufradah) Paper-I	
5	14-10-2019	Monday	Mahiyatul Amraz (Mahiyatul Amraz Umoomi wa ILMul Jaraseem) (General Pathology) Paper-I	
6	15-10-2019	Tuesday	Mahiyatul Amraz (Mahiyatul Amraz Nizami) (Systemic Pathology) Paper-II	

नोट:- प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 30/10/2019 तक स्वयं के महाविद्यालय में सम्पन्न करा ली जावें।

**B.U.M.S. THIRD PROFESSIONAL**

S.No.	Date of Examination	Day	Subject	Time
1	07-10-2019	Monday	Communicaion Skills	01:00 PM tc 04:00 PM
2	09-10-2019	Wednesday	Ilmul Saida Paper I	
3	11-10-2019	Friday	Ilmul Saida Paper II	
4	12-10-2019	Saturday	Tibbe Qanooni wa Ilmul Samoom	
5	14-10-2019	Monday	Sareeriyat wa Usoole Ilaj	
6	15-10-2019	Tuesday	Ilaj Bit Tadbeer	
7	17-10-2019	Thursday	Araze Atfal	

नोट:- प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 02/11/2019 तक स्वयं के महाविद्यालय में सम्पन्न करा ली जावें।

## 4. परीक्षा केन्द्र का नाम :-


क्र.	परीक्षा केन्द्रों का नाम	संबद्ध महाविद्यालयों का नाम
1.	शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर	मोहसिन-ए-मिल्लत, यूनानी चिकित्सा मेडिकल एवं हॉस्पिटल, बैजनाथ पारा, रायपुर

- टीप:-
- उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाईट [www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से डाऊनलोड करके परीक्षा फार्म को छात्र से पूर्ण करवाकर फीस रूपये 100/- प्रति फार्म की दर से महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करायेगें।
  - पात्रता रखने वाले छात्रों का ही आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें, अपात्र छात्र/छात्रों का आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करें। अपात्र पाये जाने पर छात्रों का परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
  - महाविद्यालय परीक्षा फार्म का भली-भाँति सूक्ष्म परीक्षण कर विश्वविद्यालय को भेजे अन्यथा गलत होने पर महाविद्यालय की जवाबदारी होगी।
  - समस्त छात्र/छात्राओं को अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ नामांकन पत्रक की रिलप की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।



5. समस्त संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा आवेदन पत्र के शुल्क के साथ "Registrar, Pt. D.D.U. Memo. H.S. & Ayush University of C.G., Raipur" के पदनाम से "राष्ट्रीयकृत बैंक" का एकमेव बैंक ड्राफ्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करने पर ही परीक्षा आवेदन मान्य होगा।


आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/F-<sup>130</sup>/NS-<sup>28</sup>/ डी.डी.यू.यू./परीक्षा/2019 TIG-66 रायपुर, दिनांक- 22/08/19

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता, पं.दी.द.उ.स्मू.स्वा.वि.एवं.आ.वि.वि.छ.ग., रायपुर से संबद्ध महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलपति के सचिव, कुलसचिव के निज सहायक डी.यू.एच.एस., रायपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक/संचालक, कार्यालय डी.यू.एच.एस., रायपुर।
4. विकास/गोपनीय/कम्प्यूटर शाखा (गोपनीय)/परीक्षा/लेखा विभाग, पं.दी.द.उ.स्मू.स्वा.वि.एवं.आ.वि. वि. छ.ग.रायपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
6. अधिसूचना की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) का अवलोकन करें।

  
कुलसचिव